

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 50]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 दिसम्बर 2015—अग्रहायण 20, शक 1937

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कुछ नहीं.